

एचएसई दृष्टि

स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण निष्पादन की खोज एवं प्राप्ति में एक अग्रणी बनना

एचएसई रणनीतिक लक्ष्य

कोई दुर्घटना नहीं, लोगों को कोई क्षति नहीं और पर्यावरण संरक्षण का संवर्धन
एक एकीकृत क्यूएचएसई एवं जोखिम प्रबंधन नीति

स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली

ओएनजीसी विदेश व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और अपने परिचालन क्षेत्रों के अंदर और आसपास पर्यावरण संरक्षण को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान करता है। इसने 'क्यूएचएसई एवं जोखिम प्रबंधन संबंधी एकीकृत नीति' क्रियान्वित की है, जो सभी संबंधित क्षेत्रों की व्यापक रूप से प्रबंध करती है।

ओएनजीसी विदेश "विदेश में तेल एवं गैस फील्डों के अधिग्रहण के लिए कारोबार विकास गतिविधियों और ओवीएल मुख्यालय में अन्वेषणात्मक, विकासात्मक और उत्पादनकारी परिसंपत्तियों के प्रबंधन" दायरे के साथ संशोधित मानक आईएसओ 9001:2015 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 14001:2015 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) एवं ओएचएसएस 18001:2007 (व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) के अनुरूप एकीकृत क्यूएचएसई प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित है।

एचएसई प्रबंधन प्रणाली मॉडल

नेतृत्व और प्रतिबद्धता

एचएसई नीति

आयोजना

क्रियान्वयन एवं परिचालन

जाँच और सुधारात्मक कार्रवाई

प्रबंधन समीक्षा

एचएसई प्रबंधन प्रणाली के तत्व

तत्व सं..	एचएसईएमएस तत्व	प्रमाचार (एट्रेसिंग)
तत्व 1	नेतृत्व, एचएसई नीति और सतत सुधार	प्रणाली की सफलता एवं सतत सुधार के लिए आवश्यक टॉप – डाउन प्रतिबद्धता एवं निगमित आशय
तत्व 2	खतरा / स्वरूप निर्धारण, जोखिम / प्रभाव आकलन एवं नियंत्रण निश्चयन	आयोजना एचएसई नीति के अनुसरण में परिणाम

तत्व 3	कानूनी एवं अन्य अपेक्षाएं	देने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं और
तत्व 4	प्रयोजन, लक्ष्य और कार्यक्रम	उद्देश्यों की स्थापना / आयोजना
तत्व 5	संसाधन, भूमिका, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व एवं प्राधिकार	क्रियान्वयन एवं परिचालन प्रभावी एचएसई प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रक्रियाओं का विकास और क्रियान्वयन
तत्व 6	सक्षमता, प्रशिक्षण एवं जागरूकता	
तत्व 7	संप्रेषण, प्रतिभागिता एवं परामर्श	
तत्व 8	प्रलेखीकरण एवं प्रलेख नियंत्रण	
तत्व 9	परिचालन नियंत्रण	
तत्व 10	आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया	
तत्व 11	निगरानी एवं मापन	जॉच एवं उपचारात्मक कार्रवाई निष्पादन निगरानी और जब आवश्यक हो किस प्रकार उपचारात्मक कार्रवाई की जा सके
तत्व 12	घटना विवेचन, गैर – अनुपालन, सुधारात्मक कार्रवाई एवं निरोधक कार्रवाई	
तत्व 13	अभिलेख नियंत्रण	
तत्व 14	आंतरिक लेखा परीक्षा	
तत्व 15	समीक्षा प्रबंधन	समीक्षा प्रणालीगत निष्पादन, प्रभाविता और मूलभूत उपयुक्तता का आवधिक मूल्यांकन

एचएसई प्रतिबद्धता

- प्रबंधन आवश्यक संसाधन प्रदान कर और एचएसई प्रदर्शन को मापकर, समीक्षा कर और लगातार सुधार ला कर एचएसई नीति, एचएसई उद्देश्य, भूमिका और जिम्मेवारी को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के प्रति प्रतिबद्ध है।
- प्रबंधन, व्यक्तिगत दृष्टांत द्वारा, कार्य पर और कार्य से दूर, सकारात्मक एचएसई संव्यवहार का एक आदर्श स्थापन और सकारात्मक व्यवहार को प्रबलित और पुरस्कृत करना।
- प्रबंधन न सिर्फ प्रयोज्य सांविधिक नियमों और विनियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने अपितु मानकों से परे जाने के प्रति भी कटिबद्ध है।
- प्रबंधन दैनिक टूल बॉक्स बैठक को संवादात्मक सत्र बनाने के प्रति कटिबद्ध है, जो इसके सभी कर्मचारियों, संविदाकारों और साथ ही समाज के सक्रिय सम्मिलन से निष्पादित गतिविधियों में परिलक्षित होगा।

- प्रत्येक व्यक्ति जो ओवीएल के लिए कार्य करता है, एचएसई के प्रति कटिबद्ध है और कार्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी एचएसई नियम, मानक और मार्गदर्शन के अनुपालन के प्रति जिम्मेदार है।
- एचएसई दिशानिर्देशों का अनुपालन प्रत्येक स्तर पर अनिवार्य है।

हमारी आस्था

- सभी आघात, व्यावसायिक रूग्णता और पर्यावरण क्षति को रोका जा सकता है।
- एचएसई हमारे कारोबार का आधार है।
- एचएसई तरीके से काम करने से उत्पादकता, लाभप्रदता और संवहनीयता हमेशा बढ़ती है।
- कोई भी कार्य इतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है कि इसे सुरक्षित तरीके से नहीं किया जा सकता है।
- कर्मचारियों की सहलग्नता, प्रतिपुष्टि, और अभिज्ञान एचएसई के लिए आधारभूत हैं।